



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]  
No. 17]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
( डाक विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 22(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में नियम 10-ड के बाद निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :—

10-च वितरण की इलेक्ट्रानिक सूचना (ई-आईओडी)—

1. (क) विभाग द्वारा डाक उत्पादों के लिए वितरण की इलेक्ट्रानिक सूचना (ई-आईओडी) निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन उपलब्ध कराई जाएगी, नामतः :—

(i) इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति स्वयं को विभाग में पंजीकृत करेंगे; और

(ii) जिन डाक-वस्तुओं के लिए ई-आईओडी सुविधा मांगी जाएगी उन्हें विहित तरीके से नामोद्दिष्ट डाकघर में जमा किया जाए ।

(ख) ई-आईओडी सुविधा का उपयोग करने का प्रभार 0.50 रु. प्रति डा-वस्तु है बशर्त कि महानिदेशक द्वारा डाक-वस्तुओं की किसी श्रेणी के लिए रियायत न दी गई हो ।

2. महानिदेशक ई-आईओडी सेवा का उपयोग करने के लिए पंजीकरण, डाक-प्रेषण, भुगतान, बार कोडों के चिपकाए जाने या मुद्रित किए जाने के तौर-तरीके, डाक-प्रेषित किए जाने वाले

डाक-वस्तुओं की न्यूनतम संख्या, या कोई अन्य शर्तें अपने आदेश से विहित या आशोधित कर सकते हैं ।

[सं. 34-4/2007-डी]

एम.एस. बाली, वरिष्ठ उप महानिदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (मेल व्यवसाय)

टिप्पणी :—दिनांक 1-1-1975 तक यथासंशोधित मुख्य नियम जो डाक-तार नियमावली खण्ड-1, विधायी अधिनियम, भाग-1, पांचवे संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं, और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए हैं :—

1. सा.का.नि. 2888, दिनांक 19 दिसम्बर, 1975
2. सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1975
3. सा.का.नि. 741(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 472, दिनांक 24 जनवरी, 1976
5. सा.का.नि. 93(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1976
6. सा.का.नि. 811(अ), दिनांक 31 मई, 1976
7. सा.का.नि. 943(अ), दिनांक 21 जून, 1976
8. सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 7 जनवरी, 1978
9. सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 29 मई, 1978
10. सा.का.नि. 316(अ), दिनांक 18 मई, 1979
11. सा.का.नि. 4118(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1979
12. सा.का.नि. 1256(अ), दिनांक 13 मई, 1980
13. सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 26 जून, 1980
14. सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 26 जून, 1980
15. सा.का.नि. 380(अ), दिनांक 5 जून, 1981

16. सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1981
17. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1982
18. सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 22 मई, 1982
19. सा.का.नि. 411(अ), दिनांक 13 मई, 1982
20. सा.का.नि. 520(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1982
21. सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 20 जनवरी, 1983
22. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1983
23. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 21 मार्च, 1983
24. सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 23 मार्च, 1983
25. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 17 जनवरी, 1984
26. सा.का.नि. 1652(अ), दिनांक 19 मई, 1984
27. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 1986
28. सा.का.नि. 329, दिनांक 3 मई, 1986
29. सा.का.नि. 461, दिनांक 14 जून, 1986
30. सा.का.नि. 2420, दिनांक 28 जून, 1986
31. सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
32. सा.का.नि. 2460(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
33. सा.का.नि. 1333(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1986
34. सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
35. सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1987
36. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 1987
37. सा.का.नि. 265(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 1987
38. सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 1987
39. सा.का.नि. 531(अ), दिनांक 27 मई, 1987
40. सा.का.नि. 438(अ), दिनांक 6 जून, 1987
41. सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 27 अगस्त, 1987
42. सा.का.नि. 688, दिनांक 30 अगस्त, 1987
43. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1987
44. सा.का.नि. 829(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
45. सा.का.नि. 823(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
46. सा.का.नि. 976(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1987
47. सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988
48. सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988
49. सा.का.नि. 212(अ), दिनांक 26 फरवरी, 1988
50. सा.का.नि. 344(अ), दिनांक 4 मार्च, 1988
51. सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 14 अप्रैल, 1988
52. सा.का.नि. 462(अ), दिनांक 2 मई, 1988
53. सा.का.नि. 639, दिनांक 23 मई, 1988
54. सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 7 जून, 1988
55. सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 29 जून, 1988
56. सा.का.नि. 633(अ), दिनांक 1 जुलाई, 1988
57. सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 8 जुलाई, 1988
58. सा.का.नि. 866(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1988
59. सा.का.नि. 1022(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1988
60. सा.का.नि. 14(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1989
61. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1989
62. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1989
63. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1989
64. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 1 मार्च, 1989
65. सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 1 मई, 1989
66. सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 9 जून, 1989
67. सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 24 जून, 1989
68. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 26 अगस्त, 1989
69. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 1989
70. सा.का.नि. 898, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989
71. सा.का.नि. 965, दिनांक 12 दिसम्बर, 1989
72. सा.का.नि. 1077(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989
73. सा.का.नि. 1078(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989
74. सा.का.नि. 967(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1989
75. सा.का.नि. 198(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1990
76. सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 1 मार्च, 1990
77. सा.का.नि. 197(अ), दिनांक 5 मार्च, 1990
78. सा.का.नि. 312(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 1990
79. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 1990
80. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 11 मई, 1990
81. सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 5 जून, 1990
82. सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 5 जून, 1990
83. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 13 जून, 1990
84. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1990
85. सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1990
86. सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 31 अगस्त, 1990
87. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1990
88. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 1990
89. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1991
90. सा.का.नि. 178, दिनांक 6 अप्रैल, 1992
91. सा.का.नि. 79, दिनांक 4 जनवरी, 1993

92. सा.का.नि. 259(अ), दिनांक 5 मार्च, 1993
93. सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 17 मई, 1993
94. सा.का.नि. 615(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1993
95. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1993
96. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 1993
97. सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1994
98. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1994
99. सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 26 मार्च, 1994
100. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 2 जून, 1994
101. सा.का.नि. 502(अ), दिनांक 8 जून, 1994
102. सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1994
103. सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 1994
104. सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994
105. सा.का.नि. 873(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994
106. सा.का.नि. 931(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1994
107. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1995
108. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1995
109. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 14 जून, 1995
110. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995
111. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995
112. सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1995
113. सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 1995
114. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 1995
115. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 7 मई, 1996
116. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 21 अगस्त, 1996
117. सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 1996
118. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1996
119. सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 1996
120. सा.का.नि. 267(अ), दिनांक 19 मई, 1997
121. सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30 मई, 1997
122. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 10 जून, 1997
123. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 26 जून, 1997
124. सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
125. सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998
126. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998
127. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1998
128. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1998
129. सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1999
130. सा.का.नि. 46(अ), दिनांक 22 जनवरी, 1999
131. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1999
132. सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 13 मई, 1999
133. सा.का.नि. 357(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2000
134. सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2000
135. सा.का.नि. 71(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2001
136. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 24 मई, 2001
137. सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2002
138. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2002
139. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 14 मई, 2002
140. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 24 मई, 2002
141. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2002
142. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2002
143. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2003
144. सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2003
145. सा.का.नि. 292(अ), दिनांक 13 मई, 2005
146. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2006
147. सा.का.नि. 466(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2006
148. सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2006
149. सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2006
150. सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 20 मार्च, 2007
151. सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2007
152. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2007
153. सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2007

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2008

**G.S.R. 22 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 21 read with Section 74, of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, after rule 10-E, the following rule shall be inserted, namely :—

“10-F. Electronic Intimation of Delivery (e-IOD)—

1. (a) Electronic Intimation of Delivery (e-IOD) for postal products shall be provided by the Department, subject to the following conditions, namely :—

(i) person desirous of availing the facility shall register with the Department; and

(ii) articles for which e-IOD facility is sought shall be tendered at a designed postal office, in the prescribed manner.

(b) Charges for availing e-IOD facility will be Re. 0.50 per article, unless exempted by Director General for a class of articles.

2. Director General may, by order, prescribe or modify the manner of registration, posting, payment, affixing or printing of bar codes, minimum number of articles to be posted, or any other conditions for availing e-IOD Service.

[No. 34-4/2007-D]

M. S. BALI, Sr. DDG/Chief General Manager (Mail Business)

**Note:—**The principal rules as amended up to 1-1-1975 have been published in the Posts and Telegraphs Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and subsequently amended by :—

1. G.S.R. 2888, dated the 19th December 1975
2. G.S.R. 596(E) dated the 30th December 1975
3. G.S.R. 741(E) dated the 31st December, 1975
4. G.S.R. 472, dated the 24th January, 1976
5. G.S.R. 93(E), dated the 25th February, 1976
6. G.S.R. 811(E), dated the 31st May, 1976
7. G.S.R. 943(E), dated the 21st June, 1976
8. G.S.R. 135(E), dated the 7th January, 1978
9. G.S.R. 304(E), dated the 29th May, 1978
10. G.S.R. 316(E), dated the 18th May, 1979
11. G.S.R. 4118(E), dated the 29th December, 1979
12. G.S.R. 1256 (E) dated the 13th May, 1980
13. G.S.R. 490(E), dated the 26th June, 1980
14. G.S.R. 491(E), dated the 26th June, 1980
15. G.S.R. 380(E), dated the 5th June, 1981
16. G.S.R. 409(E), dated the 26th September, 1981
17. G.S.R. 59(E), dated the 11th February, 1982
18. G.S.R. 417(F), dated the 22nd May, 1982
19. G.S.R. 411(E), dated the 13th May, 1982
20. G.S.R. 520(E), dated the 10th August, 1982
21. G.S.R. 33(E), dated the 20th January, 1983
22. G.S.R. 49(E), dated the 2nd February, 1983
23. G.S.R. 92(E), dated the 21st March, 1983
24. G.S.R. 444(E), dated the 23rd March, 1983
25. G.S.R. 37(E), dated the 17th January, 1984
26. G.S.R. 1652(E), dated the 19th May, 1984
27. G.S.R. 637(E), dated the 16th April, 1986
28. G.S.R. 329 dated the 3rd May, 1986
29. G.S.R. 461, dated the 14th June, 1986
30. G.S.R. 2420, dated the 28th June, 1986
31. G.S.R. 436(E) dated the 24th July, 1986
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986
33. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29th December, 1986
35. G.S.R. 85(E) dated the 6th February, 1987
36. G.S.R. 548(E), dated the 28th February, 1987
37. G.S.R. 379(E), dated the 10th April, 1987
38. G.S.R. 265(E), dated the 11th April, 1987
39. G.S.R. 480(E), dated the 29th April, 1987
40. G.S.R. 531(E), dated the 27th May, 1987
41. G.S.R. 438 (E), dated 6th June, 1987
42. G.S.R. 632(E), dated the 27th August, 1987
43. G.S.R. 688, dated the 30th August, 1987
44. G.S.R. 807(E), dated the 2nd September, 1987
45. G.S.R. 829(E), dated the 15th September, 1987
46. G.S.R. 823(E), dated the 15th September, 1987
47. G.S.R. 976(E), dated the 9th November, 1987
48. G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1988
49. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1988
50. G.S.R. 212(E), dated the 26th February, 1988
51. G.S.R. 212(E), dated the 26th February, 1988
52. G.S.R. 344(E), dated the 4th March, 1988
53. G.S.R. 388(E), dated the 14th April, 1988
54. G.S.R. 462(E), dated the 2nd May, 1988
55. G.S.R. 639(E), dated the 23rd May, 1988
56. G.S.R. 683, dated the 7th June, 1988
57. G.S.R. 624(E), dated the 29th June, 1988
58. G.S.R. 633(E), dated the 1st July, 1988
59. G.S.R. 684(E), dated the 8th July, 1988
60. G.S.R. 866(E), dated the 26th September, 1988
61. G.S.R. 1022(E), dated the 31st December, 1988
62. G.S.R. 14(E), dated the 4th January, 1989
63. G.S.R. 68(E), dated the 10th January, 1989
64. G.S.R. 180(E), dated the 24th February, 1989
65. G.S.R. 223(E), dated the 28th February, 1989
66. G.S.R. 180(E), dated the 1st March, 1989
67. G.S.R. 314(E), dated the 1st May, 1989
68. G.S.R. 435(E), dated the 9th June, 1989
69. G.S.R. 478(E), dated the 24th June, 1989
70. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
71. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
72. G.S.R. 821(E), dated the 16th October, 1989
73. G.S.R. 898, dated the 2nd December, 1989
74. G.S.R. 965, dated the 12th December, 1989
75. G.S.R. 1077(E), dated the 29th December, 1989

76. G.S.R. 1078(E), dated the 29th December, 1989
77. G.S.R. 967(E), dated the 30th December, 1989.
78. G.S.R. 198(E), dated the 5th February, 1990
79. G.S.R. 100(E), dated the 1st March, 1990
80. G.S.R. 197(E), dated the 5th March, 1990
81. G.S.R. 312 (E), dated the 5th April, 1990
82. G.S.R. 358(E), dated the 30th April, 1990
83. G.S.R. 379(E), dated the 11th May, 1990
84. G.S.R. 544(E), dated the 5th June, 1990
85. G.S.R. 545(E), dated the 5th June, 1990
86. G.S.R. 783(E), dated the 13th June, 1990
87. G.S.R. 68(E), dated the 10th August, 1990
88. G.S.R. 628(E) dated the 18th August, 1990
89. G.S.R. 671 (E) dated the 31st August, 1990
90. G.S.R. 694(E), dated the 11th September, 1990
91. G.S.R. 783(E), dated the 12th October, 1990
92. G.S.R. 622(E), dated the 20th September, 1991
93. G.S.R. 178, dated the 61th April, 1992
94. G.S.R. 79, dated the 4th January, 1993
95. G.S.R. 259(E), dated the 5th March, 1993
96. G.S.R. 420(E), dated the 17th May, 1993
97. G.S.R. 615(E), dated the 20th September, 1993
98. G.S.R. 616(E), dated the 16th September, 1993
99. G.S.R. 778(E), dated the 27th December, 1993
100. G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 1994
101. G.S.R. 193(E), dated the 18th February, 1994
102. G.S.R. 152(E), dated the 26th March, 1994
103. G.S.R. 484(E), dated the 2nd June, 1994
104. G.S.R. 502(E), dated the 8th June, 1994
105. G.S.R. 793(E), dated the 7th November, 1994
106. G.S.R. 836(E), dated the 5th December, 1994
107. G.S.R. 860(E), dated the 21st December, 1994
108. G.S.R. 873(E), dated the 21st December, 1994
109. G.S.R. 931(E), dated the 26th December, 1994
110. G.S.R. 121(E), dated the 24th February, 1995
111. G.S.R. 342 (E), dated the 18th April, 1995
112. G.S.R. 484(E), dated the 14th June, 1995
113. G.S.R. 736(E), dated the 13th November, 1995
114. G.S.R. 737(E), dated the 13th November, 1995
115. G.S.R. 926(E), dated the 20th November, 1995
116. G.S.R. 764(E) dated the 29th November, 1995
117. G.S.R. 783(E), dated the 7th December, 1995
118. G.S.R. 201(E), dated the 7th May, 1996
119. G.S.R. 372 (E), dated the 21st August, 1996
120. G.S.R. 27(E), dated the 18th September, 1996
121. G.S.R. 517 (E), dated the 6th November, 1996
122. G.S.R. 573(E), dated the 18th December, 1996
123. G.S.R. 267 (E), dated the 19th May, 1997
124. G.S.R. 295 (E), dated the 30th May, 1997
125. G.S.R. 318 (E), dated the 10th June, 1997
126. G.S.R. 351(E), dated the 26th June, 1997
127. G.S.R. 723(E), dated the 26th December, 1997
128. G.S.R. 41 (E), dated the 21st January, 1998
129. G.S.R. 42 (E), dated the 21st January, 1998
130. G.S.R. 406 (E), dated the 26th July, 1998
131. G.S.R. 503(E), dated the 19th August, 1998
132. G.S.R. 40 (E) dated the 21st January, 1999
133. G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 1999
134. G.S.R. 77 (E) dated the 9th February, 1999
135. G.S.R. 345(E) dated the 13th May, 1999
136. G.S.R. 357 (E) dated the 27th April, 2000
137. G.S.R. 672(E), dated the 25th August, 2000
138. G.S.R. 71(E), dated the 7th February, 2001
139. G.S.R. 387 (E) dated the 24th May, 2001
140. G.S.R. 7 (E), dated the 3rd January, 2002
141. G.S.R. 23 (E), dated the 11th January, 2002
142. G.S.R. 366 (E), dated the 14th May, 2002
143. G.S.R. 381(E), dated the 24th May, 2002
144. G.S.R. 612(E), dated the 2nd September, 2002
145. G.S.R. 637 (E) dated the 11th September, 2002
146. G.S.R. 705(E) dated the 4th September, 2003
147. G.S.R. 514 (E) dated the 10th October, 2003
148. G.S.R. 292 (E) dated the 13th May, 2005
149. G.S.R. 30 (E) dated the 20th January, 2006
150. G.S.R. 466 (E) dated the 8th August, 2006
151. G.S.R. 487 (E) dated the 18th August, 2006
152. G.S.R. 663 (E) dated the 25th October, 2006
153. G.S.R. 210 (E) dated the 20th March, 2007
154. G.S.R. 511 (E) dated the 27th July, 2007
155. G.S.R. 532 (E) dated the 3rd August, 2007
156. G.S.R. 775 (E) dated the 18th December, 2007